

## **Women Empowerment**

S.M.S.L Government College Julana demonstrates exceptional commitment to women empowerment through diverse initiatives organized by the Women Cell. The institution actively promotes skill development, self-confidence, and awareness among female students through activities like competitions, workshops, and training camps. Celebrations such as the Teej and Karva Chauth festivals include cultural and skill-based competitions like Mehndi application, fostering creativity and participation. Events like rangoli, essay writing, and speech competitions focus on the theme of women empowerment, encouraging students to express their perspectives and build self-assurance. Workshops on financial literacy and self-defense exemplify the institution's dedication to equipping women with essential life skills. Programs like the six-day self-defense camp empower students with techniques to ensure their safety and build physical and mental strength. Financial education sessions provide insights into money management, investments, and employment opportunities, preparing students for professional success. Awareness initiatives such as National Deworming Day highlight the importance of health and hygiene, while counseling workshops emphasize students' roles in society and their responsibilities as citizens. Participation in external events during International Women's Week further showcases the institution's support for women to excel beyond campus boundaries. These comprehensive efforts collectively foster an inclusive and empowering environment for women at the college.

On August 18, 2023, on the occasion of Teej festival in Government College, Julana, a Mehndi competition was organized by the Women's Cell.



A two-day workshop on the topic 'Financial Education for Young Citizen' was concluded at Government College, Julana on October 25-26, 2023 by women cell and Department of Commerce.

## राजकीय कालेज जुलाना में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

■ धन प्रबंधन को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक

जुलाना, 25 अक्टूबर (पंचाल): राजकीय महाविद्यालय जुलाना में युवा नागरिकों के लिए वित्तीय शिक्षा नामक विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. यशपाल सिंह ने की।

इस प्रोग्राम में बबिता पुनिया ने सभी विद्यार्थियों को धन प्रबंधन से संबंधित जानकारी दी। यह वर्कशॉप राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही है। जिसके अंतर्गत प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को सर्टीफिकेट भी दिए जाएंगे।



जुलाना के राजकीय कालेज में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करती हुई बबिता पुनिया।

बुधवार को जुलाना के राजकीय कालेज में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 100 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। बबिता पुनिया ने सभी विद्यार्थियों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड और बैंक में विभिन्न सरकारी योजनाओं आदि से संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही सभी बच्चों ने इन विषयों से

संबंधित विषय को भी सॉल्व किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. यशपाल सिंह ने बताया कि हमें इस तरह के कार्यक्रम से रोजगार को लेकर अपनी संभावनाओं को बढ़ाने में सहायता मिलती है, साथ ही वे दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं।

महिला प्रकोष्ठ ईंचार्ज और कॉमर्स विभाग प्रभारी डॉ. ज्योति लडवाल ने

बताया कि इस प्रोग्राम में विद्यार्थियों को नेशनल लैवल के संस्थान का फायदा उठाने का अवसर मिला है, जिसके तहत अपने विनियोग से संबंधित निर्णय लेते हुए अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉ. जगवीर सिंह, नीरज धानिया, मुकेश देशवाल, विश्वजीत, सुशील, डॉ. श्रवण, निशा मौजूद रहे।

रा ट प्र हि ज र पु ति प

## हरिभूमि

रोहताक - जीन्द  
27 Oct 2023



जुलाना। कालेज में कार्यक्रम में भाग लेते छात्र।

## स्टॉक मार्केट में इक्विटी और डिबेंचर, बॉन्ड की जानकारी दी

■ राजकीय महाविद्यालय जुलाना में कार्यशाला का हुआ आयोजन

हरिभूमि ब्यूज >>> जुलाना

राजकीय कालेज में फाइनेंशियल एजुकेशन फोर यंग सीटीजन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. यशपाल सिंह ने की।

कार्यक्रम में रिसेस परसन के तौर पर बबिता पुनिया ने सभी विद्यार्थियों को धन खर्च से संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम में लगभग 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बबिता पुनिया ने सभी विद्यार्थियों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड और बैंक में विभिन्न सरकारी योजना संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही सभी बच्चों ने इन विषयों से संबंधित विषय को भी सॉल्व किया। बबिता पुनिया ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा मुद्रा डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव, ब्याज दर डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरी संचालन, अनुपालन,

निचेय सलाह, अनुसंधान विश्लेषण, मर्जेंट बैंकिंग, प्रतिभूति संचालन, जोखिम प्रबंधन और सेवानिवृत्ति सलाह संबंधित विभिन्न सर्टीफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाते हैं। जिनको करके विद्यार्थी अच्छे पैकेज के साथ रोजगार पा सकते हैं और अपनी जीविका का साधन बन सकते हैं। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. यशपाल सिंह ने बताया कि हमें इस तरह के कार्यक्रम से रोजगार को लेकर अपनी संभावनाओं को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

साथ ही वे दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। महिला प्रकोष्ठ ईंचार्ज और कॉमर्स विभाग प्रभारी डॉ. ज्योति लडवाल ने बताया कि इस प्रोग्राम में विद्यार्थियों को नेशनल लेवल के संस्थान का फायदा उठाने का अवसर मिला है। जिसके तहत में अपने विनियोग से संबंधित निर्णय लेते हुए अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉ. जगवीर सिंह, नीरज धानिया, मुकेश देशवाल, विश्वजीत, सुशील, डॉ. श्रवण, निशा मौजूद रहे।

On October 31, 2023, Mehndi competition was organized by the women's cell on the occasion of Karva Chauth festival in Government College Julana.



On December 2, 2023, rangoli, slogan writing, essay writing and speech competitions were organized on the topic of women empowerment by the women's cell.

**पंजाब केसरी** SUN, 03 DECEMBER 2023  
EDITION: JIND KESARI, PAGE NO. 4

IV [www.punjabkesari.in](http://www.punjabkesari.in) जींद

## राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रतियोगिता आयोजित

■ रंगोली में तनु और निबंध प्रतियोगिता में सुचिता प्रथम



लेखन प्रतियोगिता में सुचिता प्रथम, निशा द्वितीय और प्रिया तृतीय स्थान पर रहे। वहीं भाषण प्रतियोगिता में हर्षिता प्रथम, राशि द्वितीय और गुंजन तृतीय स्थान पर रहे। इसी तरह नारा लेखन प्रतियोगिता में हर्षिता प्रथम, अंजू द्वितीय और रितु तृतीय स्थान पर रहे। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. ज्योति लडव्याल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लगभग 100 के करीब लड़कियों ने भाग लिया है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्राओं की प्रतिभा के निखार में सहयोग करती हैं। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए, ताकि उनके आत्मविश्वास के साथ-साथ उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। इस अवसर पर डॉ. उषा, निशा, दीपक भाखर, मुकेश देशवाल, डॉ. श्रवण और सुशील उपस्थित रहे।

रंगोली प्रतियोगिता दौरान रंगोली दिखाती हुई छात्राएं। (पांचाल)

जुलाना, 2 दिसम्बर (पांचाल): जुलाना के राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा रंगोली, निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य विजेंद्र सिंह ने की। इस प्रतियोगिता में लड़कियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर छात्राओं के कौशल विकास को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी को लेकर शनिवार को महिला प्रकोष्ठ द्वारा रंगोली, निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्राओं ने अपने हुनर का परिचय दिया। कालेज में आयोजित हुई रंगोली प्रतियोगिता में तनु और सपना ने प्रथम स्थान, निक्की व अनीता ने द्वितीय स्थान और नीरज व वर्षा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी कड़ी में निबंध



A six-day self-defense training camp concluded at Government College Julana from 8th December to 13th December 2023.

पंजाब  
केसरी

SAT, 16 DECEMBER 2023  
EDITION: JIND KESARI, PAGE NO. 1

## राजकीय कॉलेज में 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न

जुलाना, 15 दिसम्बर (पांचाल): जुलाना के राजकीय महाविद्यालय में 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डा. याशपाल सिंह ने की। इस प्रशिक्षण के दौरान 100 से ज्यादा छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे।

राजकीय कॉलेज में छह दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर महिला सैल प्रभारी डा. ज्योति लडवाल की देखरेख में संपन्न हुई। प्रशिक्षित छात्राओं ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला। छात्राएं किसी मनचले लडकों से कैसे बचाव कर सकती हैं, और कैसे उन पर बिना किसी औजार के प्रहार कर किया जा सकता है इसके बारे में बहुत कुछ सीखा। लडकियों का मानना है कि ऐसे



आत्मरक्षा गुर सिखती छात्राएं।

(पांचाल)

प्रशिक्षण शिविर समय-समय पर होने चाहिए। ताकि वे अपनी आत्मरक्षा कर सके और अपने आप को मजबूत बना सके। महिला सैल प्रभारी डा. ज्योति लडवाल ने बताया कि महाविद्यालय में 6 दिन

का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था जिसका समापन हो गया है। उन्होंने बताया कि आज के समय में छात्राओं को असामाजिक तत्वों बचने के लिए आत्मरक्षा के गुर सीखने चाहिए।

इस मौके पर महिला प्रशिक्षक एवं बॉक्सिंग खिलाड़ी मोनिका पांचाल, दीपक भाकर, मुकेश देशवाल, डा. श्रवण, डा. उषा, नरेंद्र, सुशील, निशा सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा।



On 15 February 2024, National Deforming Day was organized by Red Ribbon Club, Youth Red Cross Unit and Women's Cell at Government College Julana.

**पंजाब केसरी** FRI, 16 FEBRUARY 2024  
EDITION: JIND KESARI, PAGE NO. 4

राजकीय कालेज जुलाना में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का हुआ आयोजन

जुलाना, 15 फरवरी (पांचाल): जुलाना के राजकीय महाविद्यालय जुलाना में रैड रिबन क्लब, यूथ रैडक्रास यूनिट व महिला प्रकोष्ठ की ओर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी प्राचार्य डॉ. जगबीर सिंह करते हुए विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहने के लिए बताया।

रैड रिबन क्लब इंचार्ज डा. निशु गुप्ता ने बताया कि प्रदेशभर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को कीड़ों के असर को खत्म करने की दवा खिलाई जा रही है। ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें। महिला प्रकोष्ठ की इंचार्ज डा. ज्योति लडवाल ने विद्यार्थियों को पेट में होने वाले कृमि संक्रमण को रोकने के लिए दी जाने वाली टैबलेट एल्बेंडाजॉल के बारे में जानकारी दी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुलाना से आए स्वास्थ्य कर्मी नवीन ए.एन.एम. व सुमन आशा वर्कर ने विद्यार्थियों को एल्बेंडाजॉल की टैबलेट बांटीं। इस अवसर पर नीरज धानिया व डॉ. उषा उपस्थित रहे।



A counseling workshop was organized under the Women's Cell on 27 February 2024 at Government College, Julana.

पंजाब  
केसरी

WED, 28 FEBRUARY 2024  
EDITION: JIND KESARI, PAGE NO. 4

बुधवार WEDNESDAY, 28 फरवरी 2024

## राजकीय कालेज में हुई एक दिवसीय कार्यशाला



कार्यशाला में छात्रों को संबोधित करते हुए प्राचार्य डा. यशपाल सिंह। (पांचाल)

जुलाना, 27 फरवरी (पांचाल): कस्बे के राजकीय कालेज में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. यशपाल सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले महाविद्यालय के लिए हमारा उत्तरदायित्व यह है कि हम अपने आस-पास का वातावरण स्वच्छ रखें और कूड़ा-कचरा न फैलाएं।

इसके अलावा उन्होंने समाज में नारियों की भूमिका पर जोर डालते हुए बताया कि आप सभी इस समाज की आधी आबादी हैं और आप युवाओं पर ही देश का भविष्य टिका हुआ है। इस आयु में क्योंकि सबसे ज्यादा जोश और उत्साह होता है, तो अपने जोश और उत्साह को

सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा सकते हैं।

काउंसलिंग वर्कशॉप में उपस्थित दीपक भाखर ने भी छात्रों को बताया कि अगर हम अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का पालन भी करें, तो अपने राष्ट्र के सम्पदा बन सकते हैं। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. ज्योति लडवाल ने बताया कि महिला प्रकोष्ठ की तरफ से पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं, जो उनकी महाविद्यालय में शैक्षणिक विकास के साथ-साथ सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। कार्यक्रम दौरान डॉ. उषा, नीरज धानिया, मुकेश देशवाल, डॉ. विश्वजीत सिंह और डॉ. श्रावण मौजूद रहे।



Nine (9) Girl Students of Government College Julana participated in various competitions being held during the International Women's Week being celebrated at Chaudhary Ranbir Singh University.

